

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012—कार्तिक 4, शक 1934

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, ग्वालियर मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. क्यू.-एस.सी.-1-13-2012.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 37(1) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् डबरा, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 20 के निर्वाचित पार्षद श्री अर्जुनदास शीतलानी पुत्र श्री खानचंद शीतलानी, निवासी ढीमरपुरा डबरा, जिला ग्वालियर की मृत्यु दिनांक 3 अगस्त 2012 को हो जाने के फलस्वरूप वार्ड क्रमांक 20 के पार्षद का पद रिक्त हो गया है.

अतः, मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद् डबरा में वार्ड क्रमांक 20 में निर्वाचित पार्षद का पद दिनांक 3 अगस्त 2012 से रिक्त घोषित करता हूं.

पी. नरहरि, कलेक्टर.

ग्वालियर, दिनांक 15 अक्टूबर 2012

क्र. क्यू.-एस.सी.-1-12-2012.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 41 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् डबरा, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 7 के निर्वाचित पार्षद श्री अनिल जायसवाल (अन्नी) पुत्र श्री सुरेशचंद्र जायसवाल, निवासी विद्या मार्केट के पीछे जंगीपुरा, तहसील डबरा, वार्ड क्रमांक 7 को पार्षद पद से पृथक् किये जाने के फलस्वरूप वार्ड क्रमांक 7 का निर्वाचित पार्षद का पद रिक्त हो गया है.

अतः, मैं, पी. नरहरि, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश नगरपालिका परिषद् डबरा में वार्ड क्रमांक 7 में निर्वाचित पार्षद का पद दिनांक 30 जुलाई 2012 से रिक्त घोषित करता हूं.

पी. नरहरि, कलेक्टर.